



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 14 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 23, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 4627/छ:-पु०-9-23-13(1)-84टी०सी०

लखनऊ, 14 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

(शक्ति)

प०आ०-676

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, जनपद अयोध्या में मकर संक्रान्ति, बसन्त पंचमी मेला, हाईस्कूल/इण्टरमीडिट बोर्ड परीक्षा, महाशिवरात्रि, होली, चैत्र रामनवमी मेला-2024, इदु-उल-फितर आदि त्योहारों, व जनपद में होने वाले अन्य कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत जनपद में लोक शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने हेतु जनपद अयोध्या में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के पुराना वेतन बैंड-2, रु० 9300-34,800, में पे-ग्रेड रु० 4200 एवं नया वेतन लेवल-6 वेतनमान रु० 35,400-1,12,400 या उच्चतर वेतन बैंड का पद धारण करने वाले निम्नलिखित समस्त अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से दिनांक 30 जून, 2024 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करती हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ, प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे जनपद अयोध्या की सीमा के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं :-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी/समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, अयोध्या।
- 3-क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, अयोध्या।
- 4-कुल सचिव, डा० आर० एम० एल० अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

- 5-उपाध्यक्ष/सचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
- 6-मुख्य राजस्व अधिकारी, अयोध्या।
- 7-उप संचालक चकबन्दी, अयोध्या।
- 8-बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/समस्त चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी, अयोध्या।
- 9-परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अयोध्या।
- 10-समस्त परियोजना अधिकारी/परियोजना प्रबन्धक, अयोध्या।
- 11-जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त ए0डी0ओ0, अयोध्या।
- 12-जिला समाज कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
- 13-जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त ए0डी0ओ0 पंचायत, अयोध्या।
- 14-जिला विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी, अयोध्या।
- 15-परियोजना अधिकारी, डूडा, अयोध्या।
- 16-जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी(सी0डी0पी0ओ0), अयोध्या।
- 17-उप निदेशक/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
- 18-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सहायक जिला सांख्यिकी अधिकारी, अयोध्या।
- 19-जिला युवा कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
- 20-सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां /समस्त ए0डी0ओ, अयोध्या।
- 21-उप निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
- 22-उप निदेशक/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान निरीक्षक/मधु निरीक्षक, अयोध्या।
- 23-उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, अयोध्या।
- 24-जिला कृषि रक्षा अधिकारी, अयोध्या।
- 25-भूमि संरक्षण अधिकारी, अयोध्या।
- 26-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/समस्त पशु चिकित्साधिकारी, अयोध्या।
- 27-उप निदेशक, कृषि प्रसार, अयोध्या।
- 28-उप सम्भागीय, कृषि प्रसार अधिकारी, अयोध्या।
- 29-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य), अयोध्या।
- 30-जिला गन्ना अधिकारी/ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक/गन्ना निरीक्षक, अयोध्या।
- 31-उप निदेशक, मण्डी निर्माण/प्रशासन/सचिव मण्डी समिति/मण्डी निरीक्षक, अयोध्या/रुदौली।
- 32-उप सम्भागीय, विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक, अयोध्या।
- 33-आर0एम0/ए0आर0एम0 रोडवेज/ए0आर0एम0 फाइनैस/समस्त सीनियर फोरमैन ग्रेड-1/लेखाधिकारी, अयोध्या।
- 34-उप निदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, अयोध्या।
- 35-आर0टी0ओ0/समस्त ए0आर0टी0ओ0/पी0टी0ओ0, जनपद अयोध्या।
- 36-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/समस्त ए0डी0ओ0, अयोध्या।
- 37-जिला मलेरिया अधिकारी, अयोध्या।
- 38-क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी/क्रीड़ा अधिकारी, अयोध्या।
- 39-जिला क्षयरोग अधिकारी, अयोध्या।
- 40-क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी, अयोध्या।
- 41-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, अयोध्या।

- 42-सहायक निदेशक, कारखाना, अयोध्या।
- 43-सामान्य प्रबन्धक, साकेत डेयरी, अयोध्या।
- 44-जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या।
- 45-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, अयोध्या।
- 46-सहायक निदेशक, अल्प बचत/जिला बचत अधिकारी/वरिष्ठ बचत अधिकारी, अयोध्या।
- 47-सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अयोध्या।
- 48-अपर मुख्य अधिकारी/समस्त कर अधिकारी, अयोध्या।
- 49-जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
- 50-जिला प्रोबेशन अधिकारी, अयोध्या।
- 51-जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, अयोध्या।
- 52-जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, अयोध्या।
- 53-जिला मनोरंजन कर अधिकारी/मनोरंजन निरीक्षक, अयोध्या।
- 54-प्रधानाचार्य, आई0टी0आई0/खाद्य प्रसंस्करण/क्षेत्र0ग्रा0वि0 प्रसार प्रशि0, डाभासेमर, अयोध्या।
- 55-क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी/सहायक सेवायोजन अधिकारी।
- 56-उप निबन्धक, चिट्स फण्ड एण्ड फार्म्स सोसायटी, अयोध्या।
- 57-उप नियंत्रक बांट माप/बांट माप निरीक्षक, अयोध्या।
- 58-समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/सहायक कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, अयोध्या।
- 59-समस्त प्रवक्ता/सहायक प्रोफेसर/रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं एन0डी0 यूनि0/जी0आई0सी0/जी0जी0आई0सी0/डायट, अयोध्या।
- 60-अयोध्या विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, नलकूप, लघु सिंचाई, जिला पंचायत, समाज कल्याण, निर्माण निगम, मण्डी परिषद्, ग्राम्य विकास अभिकरण, बाढ़ कार्य खण्ड, भू-गर्भ जल विभाग/सरयू नहर खण्ड, विद्युत विभाग, डूडा, राजकीय निर्माण निगम, नगर कार्य इकाई, यू0पी0पी0सी0एल0 के समस्त अधिशासी/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी।
- 61-उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम परिवर्तन अधिकारी, अयोध्या।
- 62-अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, रूदौली/नगर पंचायत बीकापुर/भदरसा/गोसाईगंज/छावनी परिषद्।
- 63-नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/अवर अभियन्ता/कर निरीक्षक, नगर निगम, अयोध्या।
- 64-समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/मेडिकल कालेज प्रवक्ता होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक/ऐलोपैथिक, अयोध्या।
- 65-समस्त प्रधानाचार्य, जनपद अयोध्या।
- 66-समस्त अपर निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, जनपद अयोध्या।
- 67-समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जनपद अयोध्या।
- 68-जनपद में पुराना वेतन बैंड-2, रू० 9300-34800 ग्रेड पे-4200 एवं नया वेतन लेबल-6 वेतनमान रू० 35400-112400 या उच्चतर वेतन बैंड का पद धारण करने वाले समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी, अयोध्या।

आज्ञा से,  
डा० संजीव गुप्ता,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4627/VI-P-09-23-13(1)-84T.C., dated December 14, 2023:

No. 4627/VI-P-9-23-13(1)-84T.C.

*Dated Lucknow, December 14, 2023*

IN exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint from the date January 01, 2024 till June 30, 2024 for High School/Intermediate Board Examination, Mahashivratri, Holi, Chaitra Ram Navmi Mela-2024, Id-Ul-Fiter, other festivals/functions in District, to maintain law and order, all Gazetted Officers and Subordinate Gazetted Officers of all departments of the State Government and all officers holding posts carrying the old Pay Band Rs. 9300-34800, Pay Grade Rs. 4200 & New Pay Level-6 Pay 35400-112400 or above in Local Authorities and Corporations or Bodies owned and controlled by the State Government, posted in the District Ayodhya, as Executive Magistrates to be known as Special Executive Magistrates and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Code on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of respective Ayodhya District in which they are for the time being posted :-

1. Chief Development Officer, Ayodhya.
2. Divisional Forest Officer/All Regional Forest Officer, Ayodhya.
3. Regional Food Controller, Ayodhya.
4. Registrar Dr. R.M.L. Awadh University, Ayodhya.
5. Vice President /Secretary, Ayodhya Development Authority, Ayodhya.
6. Chief Revenue Officer, Ayodhya.
7. Deputy Director Consolidation, Ayodhya.
8. Settlement Officer, Consolidation/All Consolidation Officer/Assistant Consolidation Officer, Ayodhya.
9. Project Director, District Rural Development Agency, Ayodhya.
10. All Project Officers/Project Manager, Ayodhya.
11. All Block Development Officer/All A.D.O., Ayodhya.
12. District Social Welfare Officer, Ayodhya.
13. District Panchayat Raj Officer/All A.D.O. Panchayat, Ayodhya.
14. District Development Officer/Assistant Development Officer, Ayodhya.
15. Project Officer, Duda, Ayodhya.
16. District Program Officer/Child Development Project Officer (C.D.P.O.), Ayodhya.
17. Deputy Director/District Backward Classes Welfare Officer, Ayodhya Assistant District Statistics Officer.
18. District Earth and Statistical Officer, Ayodhya.
19. District Youth Welfare Officer, Ayodhya.
20. Assistant Registrar, Co-operative Societies/All ADOS, Ayodhya.
21. Deputy Director, District Minorities Welfare Officer, Ayodhya.
22. Deputy Director/District Horticulture Officer/Garden Inspector/Madhu Inspector, Ayodhya.
23. Deputy Director/District Agricultural Officer, Ayodhya.
24. District Agricultural Defence Officer, Ayodhya.
25. Land Conservation Officer, Ayodhya.
26. Chief Veterinary Officer/All Veterinary Officer, Ayodhya.
27. Deputy Director, Agricultural Extension, Ayodhya.

28. Sub Divisional, Agriculture Extension Officer, Ayodhya.
29. Chief Executive Officers (Matsya), Ayodhya.
30. District Sugarcane Officer/Senior Sugarcane Inspector/Sugarcane Inspector, Ayodhya.
31. Deputy Director, Market Construction/Administration/Secretary Mandi Samiti/Mandi Inspector, Ayodhya/Rudauli.
32. Sub Divisional, Marketing Officer/District Food Marketing Officer/Senior Marketing Inspector/Marketing Inspector, Ayodhya.
33. R.M./A.R.M. Roadways/A.R.M. Finance/All Senior Foreman Grade-1/Accountant, Ayodhya.
34. Deputy Director/District Divyang Empowerment Officer, Ayodhya.
35. R.T.O./All A.R.T.O./P.T.O., District Ayodhya.
36. District Village Industries Officer/All A.D.O., Ayodhya.
37. District Malaria Officer, Ayodhya.
38. District Sports Officer/Sports Officer, Ayodhya.
39. District T.B. Officer, Ayodhya.
40. Regional Tourism Officer/Tourism Officer, Ayodhya.
41. Regional Officer, Controller of Pollution /Assistant Engineer/Junior Engineer, Ayodhya.
42. Assistant Director, Factory, Ayodhya.
43. General Manager, Saket Dairy, Ayodhya.
44. District School Inspector, Ayodhya.
45. District Basic Education Officer/All Assistant Basic Education Officer, Ayodhya.
46. Assistant Director, Small Savings/District Savings Officer/Senior Savings Officer, Ayodhya.
47. General Manager, District Industries Center, Ayodhya.
48. Additional Chief Officer/All Tax Officer, Ayodhya.
49. District Sainik Welfare Officer, Ayodhya.
50. District Probation Officer, Ayodhya.
51. District Supply Officer/Regional Food Officer/Supply Inspector, Ayodhya.
52. District Excise Officer/Excise Inspector, Ayodhya.
53. District Entertainment Tax Officer/Entertainment Inspector, Ayodhya.
54. Principal I.T.I./Food Processing/Zonal Extension Training, Dabhasemar, Ayodhya.
55. Regional Employment Officer/Assistant Employment Officer.
56. Deputy Registrar, Chits Fund and Firms Society, Ayodhya.
57. Deputy Controller Weight Measurement/Weight Measurement Inspector, Ayodhya.
58. All Additional Commissioner/Joint Commissioner/Deputy Commissioner/Assistant Commissioner/Commercial Tax Officer, Ayodhya.
59. All Spokesperson/Assistant Professor/Reader/Associate Professor/Professor Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University and ND Uni/GIC/GGIC/DIET, Ayodhya.
60. Ayodhya Development Authority, Public Works, Irrigation, Rural Engineering Department, Uttar Pradesh Jal Nigam, Tube well, Minor Irrigation, District Panchayat, Social Welfare Construction Corporation, Mandi Parishad, Rural Development Agency, Flood Work Division, Geological Water Department/Saryu Canal Block, Electricity Department, Duda, State Construction Corporation, City Works Unit, All Executive/Assistant Engineers/Junior Engineer of UPPCL and their senior officers.
61. Deputy Labour Commissioner/Assistant Labour Commissioner/Labour Conversion Officer, Ayodhya.
62. Executive Officer Municipality Circle, Rudauli/Nagar Panchayat Bikapur/Bhadaras/Gosaiganj/Cantonment Circle.

63. Municipal Commissioner/Additional Municipal Commissioner/Assistant Municipal Engineer/ Assistant Commissioner/ Chief Engineer/Executive Engineer/Junior Engineer/ Tax Inspector Municipal Corporation, Ayodhya.
64. All Ayurvedic and Unani and Homeopathic Medical Officers/Medical College spokesperson, Homeopathic and Ayurvedic/Allopathic, Ayodhya.
65. All Principal, District Ayodhya.
66. All Additional Director/Deputy Director/Assistant Director, District Ayodhya.
67. All Finance and Accounts Officer/Assistant Accountant, District Ayodhya.
68. All Gazetted and non-Gazetted Officers working in the pay scale of old Pay Band-2 Rs. 9300-34800, Pay Grade 4200 & New Pay Level-6 Pay 35400-112400 or above in Ayodhya.

By order,  
DR. SANJEEV GUPTA,  
*Sachiv.*